



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष 1930 (श0)
(सं0 पटना 6) पटना, सोमवार 5 जनवरी 2009

सं0 15/बि0स0से0-02-07/2008 का0-10303

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

30 दिसम्बर 2008

विषय:- बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) के प्राख्यापन के फलस्वरूप बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों के पुनर्निर्धारण के संबंध में।

वित्त विभाग के ज्ञापांक-660, दिनांक-08.02.99 द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) द्वारा बिहार सचिवालय सेवा का गठन किया जा चुका है। फलस्वरूप बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है।

2. अतः बिहार सचिवालय सेवा के पदों के पुनर्गठन पर विचार किये जाने हेतु निम्नांकित रूप में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है-

- | | | | |
|-------|--|---|-------------|
| (i) | विकास आयुक्त | - | अध्यक्ष। |
| (ii) | प्रधान सचिव, वित्त विभाग | - | सदस्य। |
| (iii) | प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग | - | सदस्य। |
| (iv) | प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | - | सदस्य। |
| (v) | प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग | - | सदस्य। |
| (vi) | सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग | - | सदस्य सचिव। |

3. समिति के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नांकित होंगे—
- (i) बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों में व्याप्त गत्यावरोध की समीक्षा करना। इस क्रम में संबंधित संघों के पक्ष को सुनकर उन पर भी विचार करना।
 - (ii) उपर्युक्त (i) के निष्कर्ष के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप बिहार सचिवालय सेवा (फीडर संवर्ग सहित) की संरचना की समीक्षा करना एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव देना।
 - (iii) बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न स्तरों के कर्मियों के लिए अल्प-अवधि एवं दीर्घ-अवधि के संवर्गीय प्रोन्नति के लिए समय-सीमा को तर्कसंगत बनाने के संबंध में सुधारात्मक उपाय एवं कर्मियों की दक्षता में सुधार हेतु आवश्यक परामर्श देना।
4. उपर्युक्त समिति विचारोपरान्त अपना प्रतिवेदन यथासंभव तीन माहों के अन्दर देगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/अस्पष्ट,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 6-571+100-डी0टी0पी0।